



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 19.02.2021

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचे व 01 चोरी मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 18.02.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. साजिद पुत्र मोईन निवासी यासीन मस्जिद के पास शाहबेरी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर 2. पवन पुत्र सतीश निवासी बी 319 सै 11 विजय नगर गाजियाबाद को सुदामापुरी पुलिया से मय एक- एक तमंचे व 02 जिन्दा कार 315 बोर व एक चोरी की मोसा होण्डा यूनिकोर्न रजि न 0 यूपी 14 ए एल 5496 के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मुअसं 90/2021 धारा 414 भादवि व मुअसं 91/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि, मुअसं 92/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि पंजीकृत किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. साजिद पुत्र मोईन निवासी यासीन मस्जिद के पास शाहबेरी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. पवन पुत्र सतीश निवासी बी 319 सै 11 विजय नगर गाजियाबाद

अभियोग का विवरण-

मुअसं 90/2021 धारा 414 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

मुअसं 91/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

मुअसं 92/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण-

1. दो तमंचे व 02 जिन्दा कार 315 बोर

2. एक मोसा होण्डा यूनिकोर्न रजि न 0 यूपी 14 ए एल 5496



2-थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 40 लीटर अवैध शराब, 02 किलोग्राम यूरिया व बिना नम्बर की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 19.02.2021 थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभि० संतराम पुत्र गुर्जर सिंह निवासी ग्राम सहसन थाना जुरेडा राजस्थान को खेड़ा पुल के नीचे जाने वाले रोड से मय एक बिना नंबर की मोटर साइकिल पर 40 लीटर अवैध कच्ची शराब मय 2 कि०ग्रा० यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 40/21 धारा 60/63 आबकारी एक्ट व 272 भादवि पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

संतराम पुत्र गुर्जर सिंह निवासी ग्राम सहसन थाना जुरेडा राजस्थान

अभियोग का विवरण-

मु०अ०स० 40/21 धारा 60/63 आबकारी एक्ट व 272 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

1. बिना नंबर की मोटर साइकिल
2. 40 लीटर अवैध कच्ची शराब
3. 2 कि०ग्रा० यूरिया



थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस ने तत्परता से बच्चे के लापता होने की सूचना मिलने के बाद महज 2 घण्टे के अंदर किया 14 साल के बच्चे को बरामद

नोएडा के थाना 39 क्षेत्र में सलारपुर चौकी इलाके के सलारपुर गांव में रहने वाले रोशन नाम के बच्चे की सूचना पुलिस को मिली , सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसकी खोज शुरू कर दी और महज 2 घण्टे के अंदर बच्चे को सेक्टर 107 से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया । रोशन की उम्र महज 14 साल है और वो आज स्कूल खुलने के बाद पहले दिन स्कूल के लिए रवाना हुए था ,लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंचा, स्कूल से यह जानकारी प्राप्त होने के बाद परिजन बहुत घबरा गए और आनन- फानन में पुलिस को सूचना दी । नोएडा पुलिस के थाना 39 प्रभारी समेत सलारपुर चौकी की पुलिस 2 टीम बनाकर आसपास आसपास के इलाके में बच्चे की तलाश में लग गयी ,वही बच्चे को महज 2 घंटे में सकुशल बरामद नोएडा सेक्टर 107 से बरामद कर लिया गया है।

परिजनों ने नोएडा पुलिस द्वारा सकुशल बच्चा बरामद करने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त किया ।

पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर मे पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में डीसीपी महिला सुरक्षा एवं बाल कल्याण वृंदा शुक्ला के द्वारा टूटते परिवारों को मिलाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है

इस कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से डीसीपी महिला सुरक्षा एवं बाल कल्याण वृंदा शुक्ला के द्वारा परिवार समाधान क्लिनिक का बहुत ही दृढ़ता के साथ संचालन किया जा रहा है

इस अभियान के दौरान पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में 80% समस्याओं का समाधान कराया गया है

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में डीसीपी महिला कल्याण एवं बाल कल्याण वृंदा शुक्ला के द्वारा टूटते हुए परिवारों को जोड़ने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान आज दिनांक 19.02.2021 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के थाना नॉलेज पार्क में स्थित फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लीनिक (पारिवारिक विवाद समाधान क्लीनिक) के माध्यम से लगातार नई मिशाल कायम की जा रही है। इस केन्द्र पर आये पारिवारिक विवाद के मामलों में समाधान कराने की सफलता दर करीब 80% तक पहुँच गयी है। इसी क्रम में दिनांक 19.02.2021 को 04 दंपति परिवार के बीच संवाद कराकर उनके परिवारों को टूटने से बचाया गया और उनके रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाने के लिये व उनके बीच रिश्तों में मधुरता लाने के लिये थाना नॉलेज पार्क स्थित केन्द्र पर परिवार के सदस्यों को एकत्र कर के काटकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

